




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 168]
No. 168]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1987/श्रावण 21, 1909
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1987/SRAVANA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

क नारियल जटा की चटाइयां

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं 24 ई टी सी (पी एन)/87

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

विषय: नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य

फाइल सं. 18/2/87-ई-1:-उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 24 ई टी सी (पी एन)/85, दिनांक 16 अगस्त, 1985 के द्वारा यथा प्रकाशित आयात-निर्यात नीति 1985-88, खण्ड-2 के अनुबन्ध-6 की प्रो. ध्यान दिलाया जाता है।

2. नारियल जटा की चटाइयों, चटाई बनाने के सामान (मेडिय) तथा नारियल जटा के कालीनों को न्यूनतम कीमत में सशोधन संलग्न सूची के अनुसार करने का निर्णय किया गया है।

राजीव खोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात

कोड सं.	प्रति वर्ग फुट	प्रति वर्ग फुट जहाज पर्यन्त निर्यात मूल्य	प्रति वर्ग फुट जहाज पर्यन्त निर्यात मूल्य
1	2	2	4
1. राज चटाइयां			
बी आर-1	14 औंस	4.90	5.15
बी आर-2	16 "	5.19	5.45
बी आर-3	16 "	5.85	6.14
बी आर-4	18 "	6.60	6.93
बी आर-5	18 "	6.15	6.45
बी आर-6	30 "	6.43	6.75

1	2	3	4
बी प्रार-7	18 "	6.15	6.46
बी प्रार-8	20 "	6.43	6.75
बी प्रार-9	22 "	7.15	7.53
बी प्रार-10	24 "	7.76	8.15
बी प्रार-11	20"	6ले00	6.30
बी प्रार-12	22"	6.25	6.56
टी प्रार-1	24 "	7.95	8.34
बी प्रार-1	24 "	7.94	8.34
बी प्रार-2	24 "	7.94	8.34
बी प्रार-3	24 "	8.09	8.50
बी प्रार-4	26 "	8.46	8.88
बी प्रार-5	28 "	8.87	9.31
बी प्रार-6	30 "	9.42	9! 89
स्पेल. प्रार-1	17 "	5.71	6.00
स्पेल. प्रार-4	22 "	7.72	8.11
स्पेल. प्रार-5	26 "	8.20	8.61
स्पेल. प्रार-7	26 "	11.95	12.55
स्पेल. प्रार-8	24 "	9.69	10.18
स्पेल. प्रार-9	32 "	12.87	13.51
स्पेल. प्रार-11	28 "	9.59	10.87
स्पेल. प्रार-12	32 "	15.70	16.49
स्पेल. प्रार-15	24 "	8.10	8.51
स्पेल. प्रार-16	22 "	7.38	7.75
स्पेल. प्रार-17	28 "	7.75	8.14
स्पेल. प्रार-18	24 "	10.34	10.86

1. इन्लैण्ड राब्र चटाइयां

बी प्रार-1	18 प्रॉस	8.99	9.44
बी प्रार-2	20 "	9.44	9.91
बी प्रार-3	20 "	9.85	10.34
बी प्रार-4	22 "	10.44	10.96
बी प्रार-5	24 "	10.89	11.44
बी प्रार आई वाई-1	21 "	9.57	10.05
बी प्रार आई वाई-2			
किल्लड	18 "	9.09	9.54
बी प्रार आई वाई-2			
प्रनकिल्लड	18 "	8.38	8.79
वी प्रार-1	26 "	11.34	11.91
वी प्रार-2	30 "	12.02	12.62
स्पेल. प्रार आई-1	20 "	10.28	10.79
स्पेल. प्रार आई-4	22 "	11.72	12.32
स्पेल. प्रार आई-8	22 "	16.54	17.37
स्पेल. प्रार आई-9	24 "	11.49	12.06
स्पेल. प्रार आई-10	24 "	11.98	12.58
स्पेल. प्रार आई-11	28 "	13.11	13.77
स्पेल. प्रार आई-12	26 "	10.50	11.03

3. बिट चटाइयां

बी प्रार-1	22 प्रॉट्ट	4.65	4.88
बी बी-1	26 "	5.89	6.18
ए बी-1	28 "	6.87	7.21
स्पेल. बी-1	28 "	11.14	11.70
स्पेल. बी-2	28 "	10.78	11.60

4. इ नलैण्ड बिट चटाइयां

ए बी-1	30 प्रॉस	10.74	11.28
--------	----------	-------	-------

5. फीस चटाइयां

बी सी-1	16 प्रॉस	5.70	5.99
बी सी-2	18 "	6.43	6.75
बी सी-3	20 "	6.99	7.34
बी सी-4	20 "	8.98	9.43
बी सी-5	22 "	8.00	8.49
बी सी-1	18 "	6.95	7.31
बी सी-2	20 "	7.49	7.86
बी सी-3	22 "	7.98	8.38
बी सी-4	18 "	8.49	8.91
बी सी-5	20 "	9.13	9.59
बी सी-6	17 "	10.63	11.15
बी सी-8	14.5 "	9.68	10.06
बी सी-9	16 "	10.27	10.78
स्पेल. सी-1	14 "	8.10	8.51
स्पेल. सी-2	16 "	8.73	9.17
स्पेल. सी-3	20 "	9.37	9.84
स्पेल. सी-4	20 "	9.19	9.65
स्पेल. सी-5	18 "	10.35	10.87
स्पेल. सी-7	18 "	10.12	10.63
स्पेल. सी-8	18 "	11.90	12.50
स्पेल. सी-9	17 "	9.59	10.07
स्पेल. सी-10	21 "	12.16	12.77
स्पेल. सी-12	20 "	8.62	9.05
स्पेल. सी-13	12 "	9.37	9.84
स्पेल. सी-14	17 "	17.35	18.23
स्पेल. सी-15	15 "	10.50	11.03
स्पेल. सी-16	3965ग्राम/एम ²	70.62/एम ²	74.15/एम ²

(स्वेयर टाइल और अनगियर्ड ब्रुश के साथ)

6. फाइबर चटाइयां

एफ एम-1	16 प्रॉस	11.33	11.90
एफ एम-2	26 "	12.68	13.21
एफ एम-2	28 "	13.24	13.91
एफ एम-2	30 "	13.82	14.51
एफ एम-2	32 "	14.51	15.24
एफ एम-3	26 "	13.11	13.77
एफ एम-3	28 "	13.68	14.36
एफ एम-3	30 "	14.22	14.93
एफ एम-3	32 "	14.91	15.66
स्पेल. एफ-1	22 "	24.72	25.96
स्पेल. एफ-2	19 "	15.63	16.41
स्पेल. एफ-3	34 "	27.75	29.14

7. कोरीडोर चटाइयां

ए सी-1	15 "	6.22	5.53
ए सी-2	14 "	5.80	6.09
ए सी-3	12 "	5.33	5.62
प्रार सी-1	14 "	5.35	5.62

1	2	3	4	1	2	3	4
भारती- 2	13 "	5.08	5.31	10. लूप चटाइयां			
भारती- 3	11 "	4.61	4.84	भारए -1	14 फीस	5.89	6.19
एमसी- 1	14 "	5.35	5.62	भारएल-2	12 "	5.28	5.54
डब्ल्यूसी- 1	14 "	5.35	5.62	भारएल-3	12 "	5.37	5.64
डब्ल्यूसी- 2	12 "	4.61	4.84	भारएल-4	10 "	5.08	5.33
डब्ल्यूसी- 13	10 "	3.78	3.95	बीएल-1	12 "	5.78	6.07
टीसी- 1	12 "	3.90	4.10	स्वेल. एल-2	4.88 किग्रा/एम ²	6.29	6.60
स्वेल. सीडी- 1	12 "	6.22	6.53	स्वेल. एल-4	3.05 "	6.03	5.28
स्वेल. सीडी- 2	11 "	5.49	5.76	स्वेल. एल-5	5.49 "	5.91	6.21
स्वेल. सीडी- 3	13 "	4.61	4.84	स्वेल. ए -6	3.965	5.16	5.42
स्वेल. सीडी- 4	19 "	8.52	8.95	11. मिनेसिया चटाइयां			
स्वेल. सीडी- 5	12 फीस	5.35	5.62	बीबीजी- 1 कार्बेज सहित	38 से 42 फीस	15.81	16.60
स्वेल. सीडी- 6	10.5	3.72	3.80	बीबीजी- 1 बिना कार्बेज	36 से 42 "	15.26	16.02
स्वेल. सीडी- 7	18 "	4.91	5.15	बीबीजी- 1 कार्बेज सहित	34 से 38	12.96	13.61
स्वेल. सीडी- 8	14 "	4.61	4.84	बीबीजी- 1 बिना कार्बेज	34 से 38	12.55	13.18
स्वेल. सीडी- 9	5.49 किग्रा/ एम ²	8.89	9.33	12. लक्स नाट (रोप चटाइयां)			
एमसी- 1	6.30 "	8.60	9.03	एल के ए ओवल 31	18	6.96	7.31
वाईसी- 1	3.80 "	4.37	4.59	एल के ए ओरलॉग	20	7.65	8.03
8. फीसो कोरीडोर चटाइयां				एल के भार ओवल	16	5.67	5.95
एफएसक्यू- 1	10.75 किग्रा/ एम ²	8.14	8.55	एल के भार ओरलॉग	18	6.29	6.61
9. सिन्डेट चटाइयां				एल के वो	1025 किग्रा एम ²	10487 एम ²	110/11 एम ²
एसए- 1	12 फीस	5.95	6.26	एल के बी 2 ओवल	4.80 "	5.35 "	5.62 "
एसए- 2	14 "	6.91	7.25	एल के बी 2 ओरलॉग	5.40 "	5.97 "	6.27 "
एस- 3	16 "	8.00	8.40	एल के एम 1 ओवल	4.80 "	6.53 "	6.86 "
एसए- 4	18 "	8.67	9.10	एल के एम 1 ओरलॉग	5.40 "	7.20 "	7.56 "
एसए- 5	20 "	9.09	9.54	रोप डिस/कारपेट	4.20 "	4.68 "	4.91 "
एसभार- 1	11 "	5.95	6.26	13. रबड़ बैंक टफटिड्रुग चटाई			
एसभार- 2	13 "	6.38	6.70	भार बी टी एम	23 फीस	8.57	9.00
एसभार- 3	15 "	7.32	7.69	14. पेटिट ब्रेड चटाई			
एसभार- 4	17 "	7.63	8.12	भार एम पी बी	15 "	5.62	5.90
एसभार- 5	19 "	8.13	8.54	15. रबड़ बैंक रोप चटाई			
एसबी- 1	12 "	5.42	5.69	भार बी एम भार	22 "	7.59	7.97
एसबी- 2	14 "	6.23	6.54	भार बी एम वाई	10 कि. प्रा/ एम ²	10.46	10.98
एसबी- 3	16 "	6.75	7.09	16. मीण चटाई			
एसबी- 4	18 "	7.01	7.36	एम बी ए	12 फीस	5.47	5.74
एसबी- 1	11 "	4.84	5.08	एम भार ए	12 "	5.66	5.94
एसबी- 2	13 "	5.23	5.49	एम बी बी	10 "	4.57	4.80
एसबी- 3	15 "	5.73	6.02	एम क्यू ए	18 "	6.96	7.31
स्वेल. एल- 1	20 फीस	8.53	8.95	17. क्वाकर ब्रेड			
स्वेल. एल- 2	24 "	9.35	9.82	रजेज			
स्वेल. एल- 3	26 "	8.93	9.38	प्रजेन्सो 5 प्लाई		14.06	15.71
स्वेल. एल- 4	22 "	9.67	10.15	प्रजेन्सो 7 "		13.42	14.09
स्वेल. एल- 5	24 "	10.85	11.39	प्रजेन्सो 9 "	18.65 एम/ कि. प्रा.	13.42	14.09
स्वेल. एल- 6	22 "	9.22	9.68	प्रजेन्सो 11 "	13.90 "	13.63	14.31
स्वेल. एल- 7	3.00 किग्रा/ एम ²	67.45/ एम ²	70.82/ एम ²	वाईकम 9 "	13.90 "	11.72	12.31
स्वेल. एल- 8	5.49 "	148.92 "	156.37 "				
एफबीभारए- 1	1.90 "	43.32 "	45.49 "				

परिशिष्ट—2 c

मारियल जटा की चटाइयों के लिये प्रतिरिक्त मूल्य

(ड) रबड़ के आधार वाली रस्सी की चटाइयों
घार बी एम घार और घार बी एम बाई
फॉसी और पक्के रंग वाली 0.45 प्रति वर्ग फुट(ड) इन्फ्लेड रोड सटल की घार 1 आई और
बी घार 1 बाई 2(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित केबल विरंजित निम्नतम कीमत— प्रयुक्त
धारा प्रयोग करते हुए किये गये विरंजित धारा के
प्रति कि. घा. पर 2.65 रु.(ख) रंजित और विरंजित धारा प्रयोग करते निम्नतम कीमत— प्रयुक्त
हुए बुनी हुई डिजाइनों किये गये विरंजित धारा के
प्रति कि. घा. पर 4.50 रु.(ग) रबड़ समर्थित टफटिड बुना चटाई-घार
बी टी एम 1.40 रु./वर्ग फुट

(क) पूर्ण रंजित, चित्तीवार, जैस्प, उपरंजित 1.40 रु./वर्ग फुट

(ख) स्टेंसिल 0.65 रु./वर्ग फुट

(ग) स्टेंसिल और प्रवर्णित या पक्के रंग वाली 1.15 रु./वर्ग फुट

(घ) चिपकाए हुए गोटे की चटाइयां घार एम
पी बी फॉसी, पक्के या चित्तीवार 0.45 रु./वर्ग फुट2. लिफ्ट ग्राफ 2 ओंस या 1/8" चटाइयों की
किस्म ३ कीमत प्रति लिफ्ट
रु. पर. वर्ग फुट

1. बी सी-3, बी सी-5 विशेष सी-7 बी सी-3 0.40 " " "

2. बी सी-8 0.40 " " "

3. बी घार-2, बी घार-3, बी घार-10 0.40 " " "

4. बी घार-2, बी घार-5, बी घार-6 0.45 " " "

5. विशेष घार-7, विशेष घार-6, विशेष
घार-9 विशेष घार-15 0.45 " " "

6. विशेष सी-1, एन विशेष सी-5 0.45 " " "

7. टी घार-1 0.45 " " "

8. बी घार इनलेंड 0.40 " " "

9. बी घार इनलेंड 0.45 " " "

10. फाइबर चटाइयां 0.45 " " "

11. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक प्रतिरिक्त
लिफ्ट के लिये बी बी जी-1 0.90 " " "12. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक प्रतिरिक्त
लिफ्ट के लिये बी बी जी-1 0.65 " " "बुने हुए ब्लैक भाग के साथ फील मेट जिसमें अन्तर
दूसरी के बीच न्यूनतम 22 इंच की आंतरिक
दूरी पर चटाई की चौड़ाई के रूप में 10 सें.
मी. से अधिक चौड़ाई के लिये पाइल के बिना
आंतरिक बुना हुआ भाग हो 0.50 " " "7 सें. मी. (सगभग) वर्गाकार बुना को छोड़कर
होरिजेंटल और वर्टीकल अन्तरालों वाली
बी सी बी चटाइयां 0.0 वर्ग फुट

2 सें. मी. की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल और

7 वर्टीकल अन्तराल सहित विशेष सी-1 चटाई 0.95 " " "

1. डिजाइन/रंग

क. बीच राइ एण्ड फील चटाइयां

1. स्टेंसिल रु. 0.45/पिच 2

2. स्टेंसिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 0.75/ "

3. पूर्ण रंजित, चित्तीवार जैस्प, डिस्टेंगी 1.20/ "

ख. बाइ कोम राइ एण्ड फील चटाइयां

1. स्टेंसिल 0.65/ " "

2. स्टेंसिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 1.15/ "

3. पूर्ण रंजित, चित्तीवार जैस्प, डिस्टेंगी 1.40/ "

ग. कोरीडोर चटाइयां

1. सजावटी और पक्के रंग वाली 0.30/ "

2. एक तरफ से स्टेंसिल की हुई 0.35/ "

घ. सिम्पेट चटाइयां

सजावटी और पक्के रंग वाली 0.40/ "

ङ. लूप चटाइयां

सजावटी और पक्के रंग वाली 0.45/ "

च. फील चटाइयों और फाइबर चटाइयों के
पिछले भाग पर रंग करने के लिये 0.30/ "

६. फाइबर चटाइयां

1. स्टेंसिल, स्टेंसिल एण्ड बेविल्ड या पक्के
रंग वाली 1.00/ "

2. डिजाइन इनलेंड और चित्तीवार (अप्रवर्णित) 1.75/ "

3. रेशे की चटाइयां जिनका तलापूर्व रंजित उस
धारा से बुना हुआ हो, जो डबल सेन वाले
रेशे के सामान की सभी किस्मों के लिये
लागू हो 0.30 रु. प्रति वर्ग फुट

4. बिबलिंग गार्जिज 0.75 रु. " वही—

(ज) जैस्प प्रभाव डालने वाली बी. सी. चटाइयों
के बुना में 50 प्रतिशत विरंजित मारियल
जटा के धारा के उपयोग के लिये। 2.25 रु. —वही—(ख) चटाई की विशेष सी. 1 और बी. सी.
किस्म के बुना के रूप में प्राकृतिक मारियल
जटा धारा के स्थान पर पैरोक्साइड विरंजित
धारा उपयोग करते हुए मारियल जटा की
चटाइयां चटाई की एक मीटर की
लम्बाई में प्रत्येक लड़ी के
लिये 0.08 रुपये(ग) विशेष सी. 1/बी. सी. 8 चटाइयों के बुना
में एंसाई धारा का उपयोग चटाई के प्रति रनिंग मीटर
प्रति लड़ी पर 0.06 रुपये(ड) बुहरी गाठ (रस्सी की चटाइयों) फॉसी/
चित्तीवार/पक्के रंग वाली 0.40 प्रति वर्ग फुट(ड) मीच चटाइयां
फॉसी और पक्के रंग वाली 0.30—वही—

2 सें.मी. की चौड़ाई में 6 होरिजेंटल प्रस्तरालों के साथ विशेष सी-1 चटाई

विशेष सी-1 के लिये विशिष्टकृत वर

रोल में श्रील चटाईयां, जो 10 सें.मी. तक दोनों सिरों पर पाइल के बिना बुने हुए ब्लॉक भाग के साथ हों

0.15/ वर्ग फुट

3. चटाईयों के गैर-मानक आकार

नीचे दिये गये आकारों की चटाईयों के लिये न्यूनतम मूल्य की गणना करने के लिये सादा चटाई की उपयुक्त क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य की निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर अतिरिक्त प्रभारों को जोड़ा जाना चाहिये।

(क) वे चटाईयां जो 25 सें.मी. या इससे अधिक और 35 सें.मी. तक की चौड़ाई में हों और जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग सें.मी. से कम हो

10 प्रतिशत

(ख) 25 सें.मी. से कम चौड़ाई की चटाईयां

25 प्रतिशत

(ग) 80 सें.मी. या इससे अधिक की चौड़ाई वाली या 150 या उससे अधिक लम्बाई की चटाईयां

10 प्रतिशत

4. बैकिंग/एरिजिंग

3. ग्लूइंग :-

(क) "क" संसाधित

3.75 रु. प्रति रनिंग रोल.

(ख) "ब" संसाधित

2.50 रु. ---बही---

(ग) 1/2" ग्लूइंग

1.90 रु. ---बही---

थ्रू क जैस्प मैटस लैटक्स के साथ

(3) नारियल जटा की चटाई के पीछे की तरफ स्त्रेंडिंग रबड़ लैटेक्स

1.25 रु --- बही---

(4) बी. प्रार. 3 चटाई के लिए फायर प्रूफ फिनिशिंग

0.40 रु. ---बही---

(5) रबड़ीकृत बैकिंग (21एम एम)]

2.80 रु. ---बही---

(6) रबड़ीकृत नारियलजटा, कार्बोनिंग चटाई में 1/2" की अन्डरले मोटाई के साथ

6.90 रु. ---बही---

(7) बी. प्रार. 7 की तहलहटी पर धारादार स्लिप

00.25 रु. ---बही---

स्किड यू. फोम]

(9) मैटिंग चटाई के किनारों के लिए विए ग् लैस्तेड फिनिश 4

1.55 रु. प्रति रनिंगमीटर

(9) बल्केनाईड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ क्वायर ग्लस के किनारों की फिनिशिंग के लिए

1.50 रु. ---बही---

(10) प्राकृतिक या रिक्लेमड रबड़ 750ग्राम/मी.² का प्रयोग करते हुए हीट प्रेशिंग या कैलेंडरिंग प्रक्रिया से नारियल जटा के उत्पादों की रबड़ बैकिंग

10.20 रु. प्रति वर्ग मी.

750ग्राम/मी.² से उपर या अधिक अतिरिक्त रबड़ बैकिंग

1.45 रु. प्रति 200 ग्राम वर्ग 2 या उसका हिस्सा

(11) 450ग्राम/मी.² जिन के लेटेक्स प्राधारित हैजियन क्लाय के साथ ग्लु मैटस

14.05 रु. वर्ग

5. पैकिंग

1. पोलीथीन बैग पैकिंग सादा (1 चटाई) 0.25 रु. प्रति वर्ग फुट

2. पोलीथीन बैग पैकिंग छापादार (1 चटाई) 0.40 रु. ---बही---

3. पोलीथीन बैग सादा (2 चटाई) 0.40 रु. ---बही---

4. पोलीथीन बैग आपेदार (2 चटाईयां) 0.65 रु. ---बही---

2. इन आकारों की चटाईयों को बांधने के लिए लाईनदार डिब्बे:--
24-1/4" × 14-1/2" × 15" 10.15 रु. प्रति डिब्बा
27-1/2" × 16-1/2" × 15" 12.05 रु. प्रति डिब्बा
30-1/2" × 18-1/2" × 15" 14.10 रु. प्रति डिब्बा

3. ओशिएनन क्राफ्ट पेपर के उपयोग करने हुए पैकिंग नारियल की चटाईयां

0.06 प्रति वर्ग फुट

4. अनस्पिलरतन की बनी 75 सें.मी. × 55 सें.मी. आकार की रतन (अन-स्पिलर) ब्रेस्ट में पैकिंग नारियल नारियल चटाईयां मैटिंग चटाईयां

रु. 56.25 प्रति भास्केट

5. पोलीथीन कागज के साथ कवरिंग नारियल जटा चटाईयां

0.40 रु. प्रति वर्ग फुट

6. श्रील चटाईयों में धारियां

1. छड़ धारियां

सं. 1-14" × 24"

4.20 रु. प्रति वर्ग फुट

सं. 2-16" × 27"

0.30 रु. ---बही---

सं. 3-18" × 30"

0.40 रु. बही ---

सं. 4-20" × 33"

0.40 रु. ---बही---

सं. 5-22" × 36"

0.40 रु. ---बही---

2. फँसी बायगन धारियां

की चटाईयां बी सी 3 (24 औंस) सूतली की लड़ियां

1.70 रु. ---बही---

निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त सूतली की लड़ियों के लिए अतिरिक्त कीमत 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की 2 प्लाई सूतली के धागे की प्रति लड़ि के हिसाब से निर्धारित की गई है। यदि लड़ियां ज्यादा प्रयोग की जाती हैं तो 2 प्लाई के सूतली के धागे की अतिरिक्त लड़ियों का अनुपातिक मूल्य लिया जाएगा।

1. श्रील चटाईयां 2 रबड़ चटाईयां 3 कारीडोर की चटाईयां एलोय लड़िया 55

(2) ए सी चटाईयां से प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

(2) छूप चटाईयों के मुक्त के लिए एलोई लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

एक एक चटाईयों के लिए एनजैंगों धागे वाली बैंन

एन जैंगों जंजीर (तंग और डूली) के साथ एक एक चटाईयों के लिए अतिरिक्त मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

बी प्रार 3 में बाईक्रोम धागे के स्थान पर पोली- 0.65/रु. वर्ग फुट धीन धागे तंग बैंन के रूप में उपयोग के लिए

	1	2	3	4
प्रतिरिक्त गोट लगी हुई फार्बर चटाईयों को छोड़कर सभी चटाईयाँ	0.50 रु. वर्ग फुट			
प्रतिरिक्त गोट गोट हुई फार्बर चटाईयाँ	0.65 रु. वर्ग फुट			
बी आर 10 चटाईया में नारियल जटा के गोट लगे हुए	0.20 रु. वर्ग फुट			
बी.आर. 10 चटाईया में नारियल जटा के गोट	0.25 रु. प्रति हेन्डल			
सोते हुई एक एस न्यू आई				
पूर्व रजित स्टील्स				
<p>“पूर्व रजित स्टील्स चटाईयाँ” के लिए न्यूनतम मूल्य का निश्चय उसी क्रम के वर्ग से संबंधित “पूर्व रजित चटाईयाँ” के लिए निर्धारित मूल्यों स्टील्स चटाईयाँ और “साया चटाईयाँ” के मूल्य में जो अंतर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।</p>				
ब कोयर मैटिंग्स (हथकरघा)				
कोड सं.	भार कि. प्रति वर्ग मीटर की जहाज या. वर्ग मीटर पर्यन्त	प्रति वर्ग मीटर की जहाज पर्यन्त	मि.शुल्क मूल्य	
		45.000 रु. से अधिक के भावेषों के लिए	45.000 रु. और कम के भावेषों के लिए	
1	2	3	4	
1. टूट्टीबल बीब				
एम 2 ए 2	1.55	20.94	21.99	
एम 2 ए 4	1.70	21.09	22.14	
एम 2 आर 3	1.55	18.64	19.57	
एम 2 बी 3	1.52	16.67	17.50	
एम 2 बी 3	1.40	9.68	10.16	
एस 2 एम 3	1.52	13.95	14.65	
एस 2 एस 10	1.10	18.22	19.13	
एस 2 एसम 11	1.85	27.19	28.55	
2 टूट्टीबल बास्केट बीब (3×2 या 2×2)				
एम 2 बी ए 1	1.72	22.96	24.11	
एम 2 बी ए 3	1.82	23.13	24.29	
एम 2 बी आर 3	1.80	21.12	22.18	
एम 2 बी बी 3	1.58	17.53	18.41	
एम 2 बी एम 1	1.62	22.64	23.77	
एस 2 बी एम 3	2.62	28.77	30.21	
एस 2 बी एम 7	2.80	28.14	29.55	
3. धी टूट्टिल बीब				
एम 3 ए 3		1.68	20.29	21.30
एम 3 ए 5		1.82	20.63	21.66
एम 3 आर 3		1.60	18.64	19.57
एम 3 बी 3		1.52	16.22	17.03
एम 3 बी 1		1.40	10.41	10.93
एस 3 एम 2		2.00	25.79	27.08
एस 3 एम 4		1.52	19.08	20.01
एस 3 एम 9		1.90	28.25	29.66
4. फौर ट्रीबल बीब				
एम 4 ए 2		1.75	23.13	24.29
एम 4 ए 4		1.90	23.13	24.29
एम 4 आर 2		1.68	20.25	21.26
एम 4 आर 4		1.82	20.71	21.75
एस 4 एम 4		2.13	25.96	27.26
एस 4 एम 13		2.80	32.24	33.85
एस 4 एम 17		2.62	24.30	25.52
एस 4 एम 22		1.35	23.91	25.11
5. स्पेसल रिब्स क्वायर मैटिंग्स				
एस आर 4 एम 1		1.40	18.78	19.72
6. मैश मैटिंग्स]				
एच 2 एम 2		1.70	5.60	5.88
एच 2 एम 4		1.40	19.23	20.25
एच 2 एम 6		0.40	5.73	6.02
एच 2 एम 7		1.25	17.97	18.87
7. मल्टीशाफ्ट मैटिंग्स				
एस ओ एम-1		2.00	23.90	25.10
एस ओ एम-2 (50 प्रतिशत क्वायर यान)		2.00	27.50	28.88
8. रबड़ बैंकिंग मैटिंग्स				
एस 2 आर बी-1		1.29	16.72	17.56
9. रिब्स मैटिंग्स]				
एस के-1		2.35	34.12	35.83
एस के-3		2.44	25.91	27.21
एस के-7		1.83	21.45	22.52
एस के-8		2.14	25.60	26.88
एस के-18		3.00	37.99	39.89
एस के-19		2.20	39.27	41.23
एस के-25		4.10	36.82	38.66
एस के-26		3.20	36.88	38.72
एस के-28		1.80	33.27	34.93
10. रबड़ बैंकिंग पीस्टिड क्वायर मैटिंग्स				
आर एम न्यू बी-1		3.50	61.91	65.01
11. हाथ से बुनी हुई क्वायर मैटिंग्स				
		0.205	7.62	8.00.

1	2	3	4
ग. क्वायर मैटिंग (पावरलूम)			
1. टू ट्रीडल प्लेन बीव			
पी 2 ए 1]]	1.70	22.29	23.40
पी 2 ए 2]]	2.00	19.29	20.25
पी 2 ए 3	1.80	17.38	18.25
पी 2 ए 6	1.70	22.81	23.95
2. टू ट्रीडल बास्केट बीव		5555	
पी 2 बी ए 2	2.20	27.87	29.26
पी 2 बी ए 3	2.00	25.34	26.81
पी 2 बी ए 4	1.80	22.88	24.02
3. थ्री ट्रीडल बीव			
पी 3 ए 1	1.80	21.37	22.44
पी 3 ए 2	1.85	27.58	28.96
4. फोर ट्रीडल बीव			
पी 4 ए 2	2.20	25.96	27.26
पी 4 ए 3	2.00	26.43	27.75
पी 4 ए 4	1.96	21.71	22.80
पी 4 ए 5	1.80	20.04	21.04
पी 4 ए 7	1.80	23.36	24.53
पी 4 ए 10	2.20	26.70	18.13
पी 4 ए 13	2.10	22.98	24.13
5. मल्टी शाफ्ट मैटिंग			
पी ओ ए 1	2.20	2631	27.63
पी ओ ए 2	2.10	25.21	26.47
6. रिक्वर्ड मैटिंगज			
पी के एम 1	2.00	22.37	23.49
पी के एम 3	2.10	37.47	39.34
पी के एम 4	1.80	20.14	21.15
पी के एम 5	2.20	32.14	33.75
पी के एम 8	2.00	54.63	57.36
पी के एम 9	2.90	42.02	44.12
पी के एम 12	1.85	31.61	33.19
पी के एम 13	3.20	57.27	60.13

जहाज पर्यस्त निःशुल्क मूल्य प्रति वर्ग मीटर

क्वालिटी कोड संख्या	भार कि.ग्रा./वर्ग मी.	45,000 रु. से अधिक के प्रादेश के लिए	45,000 रु. से कम के प्रादेश के लिए
---------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------

घ. क्वायर मोजीविंग

बी एम बी एन	2.05	41.45	43.52
बी एम बी प्रार	1.90	36.52	38.35
एम एम एम क्यू	2.70	43.18	45.31
बी एम बी पी	3.95	44.06	46.26
बी सी एस थ्यू-1	5.20	83.19	87.35
बी सी एस डी	3.05	37.44	39.31

क्वायर कार्पेट (अपेप्सी कार्पेट)

ओ सी एस प्रार-1	2.45	42.18	44.29
-----------------	------	-------	-------

परिशिष्ट-3

क्वायज मैटिंग के लिए अतिरिक्त मूल्य

डिजायन रंग भिन्नता संमजित करें

(क) मावा	विशिष्टिकृत करें
(ख) फैंसी, स्टैसिलड, टाहल ज़ाय-मंड पक्के रंग धादि	20 प्रतिशत
(ग) पीरोक्साइड ब्लिचड मैटिंग	रु. 4.50 प्रति किलो ग्राम
(घ) प्रार.एम क्यू बी आई -वही-	4.50 रु. प्रति वर्ग मीटर भिन्नता की संमजित करें:-
चीड़ाई	
(क) 36"	विशिष्टिकृत
(ख) 27" से ज्यादा और 72" से कम	वही जो 36" के लिए है
(ग) 18" और इससे कम	36" के लिए विशिष्टिकृत दर + 5 प्रतिशत
(घ) 18" और इससे अधिक 27" तक सहित	---वही--- + 2½ प्रतिशत
(ङ) 72" (1.83 मीटर) तथा अधिक 2 मीटर तक	---वही--- + 5 प्रतिशत
(च) 2 मीटर से अधिक किन्तु 3 मीटर तक	---वही--- + 7½ प्रतिशत
(छ) 3 मीटर से अधिक	---वही--- + 10 प्रतिशत

क्षेत्र

को एम 2 से अधिक क्षेत्र विशिष्टिकृत के प्रार एम क्यू बी-1 के अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त भार 2½ प्रतिशत

मैटिंग रंग की विभिन्नता की संमजित दरें:-

1. सिंग हुए किनारे	निबार के साथ 1.20 रु. प्रति रनिंग मीटर
	बिना निबार के 0.90 रु. प्रति रनिंग मीटर
2. धारीदार किनारे	2.40 रु. प्रति रनिंग मीटर
3. किनारे पर बुनवट डब्ली हुई	2.40 रु. प्रति रनिंग मीटर
4. रेक्सिन कपड़ों के किनारे वाली	3.00 रु. प्रति रनिंग मीटर
5. चटाई के किनारे पर पटसन की निबार के 15 मि. मीटर चीड़ाई में रंगीन सूती टेप की मिटिषिग	सूती टेप की 0.60 रु. प्रति रनिंग मीटर
6. नारियल की चटाई के काफी पर 1½" बमड़े की निबार	7.20 रु. प्रति रनिंग मीटर

क्रिकेट पिच विभिन्नता की संमजित दरें

1. 35" या इससे कम लम्बाई में	3.60 रु./एम 2
2. 35" या अधिक की लम्बाई में	2.40 रु. एम 2

क्रिकेट पिच मैटिंग के लिए लोहे की कीलें

1. 35" या इससे कम लम्बाई के क्रिकेट मैटिंग 1.20 रु. एम 2
2. 35" से अधिक लम्बाई के क्रिकेट मैटिंग 0.70 रु. एम 2
3. साधारण मैटिंग के लिए चमड़े में मैटल फाइलेट 1.20 रु. प्रति ब्राइलेट

क्रिकेट पिच मैटिंग पर कैनवस चिप-काने के लिए प्रतिरिक्त भार क्रीज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए 12.90/एम 2

चौड़ाई में सामने की तरफ क्रिकेट पिच मैटिंग 4-1/2" चौड़ाई के प्रतिरिक्त चमड़े को चिपकाने के लिए (2-1/4" सामान्य चमड़ा बाईडिंग में बाहरी निर्माण के लिए और बाईडिंग के भीतर 2-1/4") 7.00 रु. प्रति रनिंग मीटर

चौड़ाई में सामने की तरफ क्रिकेट पिच मैटिंग में चौड़ाई में 6" के प्रतिरिक्त जूट रैसियन (बाहरी बाईडिंग की बाहर 4" प्रोजेक्शिय और बाईडिंग के भीतर 2" कंसीलड) 2.10 रु. प्रति रनिंग मीटर

बैकिंग और एजिंग

1. रबड़ एजिंग 2.70 रु. प्रति रनिंग
2. रबड़ राइज क्वायर बैकिंग (2 एम एम) 19.80 रु./एम²
3. नारियल चटाइयों की पिछमी तरफ रबड़ लेटिक्स स्प्रेडिंग 12.65 रु./एम²
4. लेटेक्स बैकिंग नारियल जटा चटाइयों पर मैट तथा टाइल्स 8.35 रु./एम²
5. रबड़ लेटेक्स के साथ जेप गेट्स के किनारे थलईंग करना 0.25 रु. प्रति रनिंग मीटर
6. किनारों को फेब्रिकाल/मूवि-काल आदि से थलईंग करना 1.30 रु. प्रति रनिंग मीटर
7. एक तरफ से फेब्रिकाल/मूवि-कोल आदि से चैपवार स्प्रेडिंग 2.70 रु./फुट²
8. 25 से. मी. × 16 से. मी. में रबड़ शीट जिसे मैटिंग में सिया जाता है 0.40 रु. प्रति नग मूल्य
9. रेक्सोन के साथ कार मेट के किनारों को सीना 2.10 रु. प्रति रनिंग मीटर
10. कार मेट के चारों तरफ मस्ती रेक्सोन के साथ सीने के लिए अनिरिक्त कीमत 0.25 रु. प्रति रनिंग मीटर
11. मैटिंग मैट्स के किनारों को लेसेट फिनिश किया हुआ 1.50 रु. प्रति रनिंग मीटर
12. लेटेक्स बैकिंग के साथ मैटिंग मेट के एक ओर रबड़ एजिंग 1.45 रु. —वही—
13. कलेंडर प्रोसेस द्वारा कायर मैटिंग की रबड़ बैकिंग (600 ग्रा. वर्ग मी.) 4.00 रु. प्रति/एम²

14. वैकिंग

- (1) पोलीथीन वैकिंग
 - (क) भ्रलग-भ्रलग नमदा 1.20 रु./एम²
 - (ख) पांच नमयों के रोल 0.40 रु./एम²
 - (ग) मैटिंग रोल 0.20 रु./एम²
- (2) ओसियन क्राफ्ट पेपर के साथ वैकिंग के लिए नारियल की चटाई 0.12 रु./एम²
- (3) वैकिंग कायर मैटिंग रोलस जिनके अन्दर के परों में पी बी सी ट्यूब 25.20 रु. प्रति रनिंग मीटर
- (4) वैकिंग कायर मैटिंग रोलस जो अंदर से 16 एम.एम. हो पेपर ट्यूब की मोटाई अन्दर के घरे से 8 से.मी. की हो ट्यूब 27.60 रु. प्रति रनिंग मीटर
- (5) वैकिंग कायर मैटिंग रोलस जो अन्दर से 16 एम.एम. हो पेपर ट्यूब की मोटाई अन्दर के घरे से 10 से.मी. की हो ट्यूब का 32.40 रु. प्रति रनिंग मीटर
14. सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ अलाय यार्न ग्लीसिंग 2.40 रु. प्रति कि.ग्रा.
15. क्वायर मैटिंग में ग्लीथड क्वायर यार्न स्ट्रेन्ड्स
 - (1) रिब्ड मैटिंग के स्लैक चैन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर 0.015 रु. प्रति 2 प्लाई स्ट्रेन्ड्स
 - (2) रिब्ड मैटिंग में स्लैक चैन के साथ 0.53 रु. प्रति रनिंग मीटर प्रति दो प्लाई स्ट्रेन्ड्स
16. (क) क्वायर मैटिंग में मुतनी की लड़िया
 - (1) रिब्ड मैटिंग की स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई की लड़ियों पर 0.06 रु. प्रति रनिंग मी. पर
 - (2) स्लैक चैन में पट्टीदार 2 प्लाई की चटाई की लड़ियों पर 0.12 रु. प्रति रनिंग मीटर पर
 - (3) नारियल टा की चटाई को 2 प्लाई की मुतनी की लड़ियों पर 0.06 रु. प्रति रनिंग मीटर पर

(ख) ग्लीथ की लड़िया

- (1) पट्टीदार प्लाई की स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0.015 रु. प्रति रनिंग मी. पर

(2) पट्टीदार चटाई की स्लक
चैन में चटाई को 2 फटाई
की लड़ियों के ऊपर 0.03
र. प्रति रनिंग मीटर पर।

(ग) चौड़ाई में नारियल जडा
की चटाइयों के जवाबनिंग 1.20 र. प्रति रनिंग मीटर

17. नारियल चटाई की बनी
हुई कार मेट्स के लिए कलेक्टरिय
प्रोसेस द्वारा खड्ड हील पेड, 2.40 र. प्रति वर्ग फुट

18. खड्ड बेकड नारियल मैटिंग 1.50 र. प्रति रनिंग मीटर
कालीनों को भी गई फोल्डिड
और पेस्टिड और फिनिशिंग

19. प्रिडाइड फेमी धुवन कायमन फेसी के निग, विशिष्टिकृत दरों
स्ट्रेन्ड मैटिंग रग/मैटिंग मैट्स से अधिक 25 प्रतिशत

विशिष्ट-4

क्वायर मोजीकम/क्वायर कार्पेट के लिए अनिश्चित मूल्य (अलेप्पी
कार्पेट), डिजाइन रंग भिन्नता

समंजस दरें--

- (क) सादा विशिष्टिकृत दरें
- (ख) पक्के रंगवानी स्ट्रुप्ड (बेफटे) 20% (विशिष्टिकृत दरों से
और स्ट्रेसिड अधिक)
- (ग) फेमी बूने हुए डिजाइन 30 प्रतिशत (विशिष्टिकृत दरों
से अधिक)

मजाबट के संबंध में, क्वायर मैटिंग में हसी प्रकार के सजाबट के लिए
नियत की गई वही अनिश्चित दरें ही लागू होंगी।

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 24-ETC (PN)/87

New Delhi, the 12th August, 1987

Subject : Floor Prices for Coir and Coir Products.
File No. 18/2/87/E-1:—Attention is invited to Annexure VI
appearing in Import and Export Policy 1985-88, Volume-II
as notified vide Public Notice No. 24-ETC (PN)/85 dated 16th
August, 1985 on the above subject

2. It has been decided to revise the floor prices of Coir Mats,
Mattings and Coir Carpets as per list enclosed.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

A. COIR MATS

Code No.	Weight Oz. per sq. ft.	FOB Prices per sq. ft.	
		For orders above Rs. 45,000	For Orders of Rs. 45,000 and below.
1	2	3	4

1. Rod Mats

BR-1	14 Oz	4.90	5.15
BR-2	16..	5.19	5.45

	1	2	3	4
BR-3		16 Oz	5.85	6.14
BR-4		18"	6.60	6.93
BR-5		18"	6.15	6.46
BR-6		20"	6.43	6.75
BR-7		18"	6.15	6.46
BR-8		20"	6.43	6.75
BR-9		22"	7.15	7.53
BR-10		24"	7.76	8.15
BR-11		20"	6.00	6.30
BR-12		22"	6.25	6.56
TR-1		24"	7.94	8.34
VR-1		24"	7.94	8.34
VR-2		24"	7.94	8.34
VR-3		24"	8.09	8.50
VR-4		26"	8.46	8.88
VR-5		28"	8.87	9.31
VR-6		30"	9.42	9.89
Spl. R-1		17"	5.71	6.00
Spl. R-4		22"	7.72	8.11
Spl. R-5		26"	8.20	8.61
Spl. R-7		26"	11.95	12.55
Spl. R-8		24"	9.69	10.18
Spl. R-9		32"	12.87	13.51
Spl. R-11		28"	9.59	10.07
Spl. R-12		32"	15.70	16.49
Spl. R-15		24"	8.10	8.51
Spl. R-16		22"	7.38	7.75
Spl. R-17		28"	7.75	8.14
Spl. R-18		24"	10.34	10.86

2. Inlaid Rod Mats.

BR-1	18 Oz	8.99	9.44
BR-2	20"	9.44	9.91
BR-3	20"	9.85	10.34
BR-4	22"	10.44	10.96
BR-5	24"	10.89	11.44
BRIY-1	21"	9.57	10.05
BRIY-2 clipped	18"	9.09	9.54
BRJY-2 unclipped	18"	8.37	8.79
VR-1	26"	11.34	11.91
VR-2	30"	12.02	12.62
Spl. RI-1	20"	10.28	10.79
Spl. RI-4	22"	11.73	12.32
Spl. RI-8	28"	16.54	17.37
Spl. RI-9	24"	11.49	12.06
Spl. RI-10	24"	11.93	12.58
Spl. RI-11	28"	13.11	13.77
Spl. RI-12	26"	10.50	11.03

3. Bit Mats

BB-1	22Oz	4.65	4.88
VB-1	26"	5.89	6.18
AB-1	28"	6.87	7.21
Spl. B-1	28"	11.14	11.70
Spl. B-2	28"	16.76	17.60

4. Inlaid Bit Mats.

AB-1	30Oz	10.74	11.18
------	------	-------	-------

5. Creel Mats

RC-1	14"	5.70	5.99
BC-2	18"	6.43	6.75
BC-3	20"	6.99	7.34

1	2	3	4	1	2	3	4
BC-4	20-02	8.98	9.43	8. Fancy Corridor Mat.			8.55
BC-5	22"	8.09	8.49	FSQ1-	10 75Kg/m ²	8.14	
VC-1	18"	6.96	7.31	9. Sirmet Mats			
VC-2	20"	7.49	7.86	SA-1	12 Oz	5.96	6.26
VC-3	22"	7.98	8.38	SA-2	14"	6.91	7.26
VC-4	18"	8.49	8.91	SA-3	16"	8.00	8.40
VC-5	20"	9.13	9.59	SA-4	18"	8.67	9.10
VC-6	17"	10.63	11.16	SA-5	20"	9.09	9.45
VC-8	14.5"	9.58	10.06	SR-1	11"	5.96	6.26
VC-9	16"	10.27	10.78	SR-2	13"	6.38	6.70
Sl. C-1	14"	8.10	8.51	SR-3	15"	7.32	7.69
Spl. C-2	16"	8.73	9.17	SR-4	17"	7.73	8.12
Spl. C-3	20"	9.37	9.84	SR-5	19"	8.13	8.54
Spl. C-4	20"	9.19	9.65	SV-1	12"	5.42	5.69
Spl. C-5	18"	10.35	10.87	SV-2	14"	6.23	6.54
Spl. C-7	18"	10.12	10.63	SV-3	16"	6.75	7.09
Spl. C-8	18"	11.90	12.50	SV-4	18"	7.01	7.36
Spl. C-9	17"	9.59	10.07	SB-1	11"	4.84	5.08
Spl. C-10	27"	12.16	12.77	SB-2	13"	5.23	5.49
Spl. C-12	20"	8.62	9.05	SB-3	15"	5.73	6.02
Spl. C-13	12"	9.37	9.84	Spl. S1	20 OZ	8.53	8.96
Spl. C-14	17"	17.36	18.23	Spl. S2	24 "	9.35	9.82
Spl. C-15	15"	10.50	11.03	Spl. S3	26 "	8.93	9.38
Spl. C-16) with square tiles and unshered finish)	3965 gm/m ²	70.62/m ²	74.15/m ²	Spl. S4	22 "	9.67	10.15
6. Fibre Mats				Spl. S5	24 "	10.85	11.39
FM-1	26 oz	11.33	11.90	Spl. S6	22 "	9.22	9.68
FM-2	26..	12.58	13.21	Spl. S7	3.00 Kg/m ²	67.45/m ²	0.82/m ²
FM-2	28..	13.24	13.90	Spl. S8	5.49 "	148.92 "	156.37 "
FM-2	30..	13.82	14.51	FBRA-1	1.90 "	43.32 "	45.49 "
FM-2	32..	14.51	15.24	10. Loop Mats			
FM-3	26..	13.11	13.77	RL-1	14 OZ e	5.89	6.19
FM-3	28..	13.68	14.36	RL-2	12 "	5.28	5.54
FM-3	30..	14.22	14.93	RL-3	12 "	5.37	5.64
FM-3	32..	14.91	15.66	RL-4	10 "	5.08	5.33
dpl. F-1	22..	24.72	25.96	VL-1	12 "	5.78	6.07
Spl. F-2	19 "	15.63	16.41	Spl. L2	4.88/Kg/m ²	6.29	6.60
Spl. F-3	34 ..	27.75	29.14	Spl. L4	3.05 "	5.03	5.28
7. Corridor Mats				Spl. L5	5.49 "	5.91	6.21
AC-1	15 "	6.22	6.53	Spl. L6	3.965 "	5.16	5.42
AC-2	14 "	5.80	6.09	11. Gymnasia Mats			
AC-3	12 "	5.35	5.62	BVG 1 with	38 to 42 OZ	15.81	16.60
RC-1	14 "	5.35	5.62	Cordage			
RC-2	13..	5.06	5.31	BVG 1			
RC-3	11..	4.61	4.84	without	38 to 42 OZ	15.26	16.02
LC-1	14 "	5.35	5.62	cordage			
WC-1	14..	5.35	5.62	BBG 1 with	34 to 38 OZ	12.96	13.61
WC-2	12..	4.61	4.84	cordage			
WC-3	10..	3.76	3.95	BBG 1			
TC-1	12..	3.90	4.10	without	34 to 38 OZ	12.55	13.18
Spl. CD-1	12 "	6.22	6.53	cordage			
Spl. CD-2	11..	5.49	5.76	12. Lovers' Knot (Rope Mats)			
Spl. CD-3	13 "	4.61	4.84	LKA Oval	18	6.96	7.31
Spl. CD-4	19 "	8.52	8.95	LKA Oblong	20	7.65	8.03
Spl. CD-5	12Oz	5.35	5.62	LKR Oval	16	5.67	5.95
Spl. CD-6	10.5"	3.62	3.80	LKR Oblong	18	6.29	6.61
Spl. CD-7	18"	4.91	5.15	LKV	10.25 Kg/m ²	104.87/m ²	110.11/m ²
Spl. CD-8	14"	4.61	4.84	LKV 2 Oval	4.80 "	5.35 "	5.62
Spl. CD-9	5.49/Kg/m ²	8.89	9.33				
MC-1	6.30..	8.60	9.03				
YC-1	3.60..	4.37	4.59				

1	2	3	4		
				(f) For colouring the backside of creel mats & fibre mats.	0.30/ Ft ²
LKV 2 Oblong	5.40 Kg/m ²	5.97 /m ²	6.27 /m ²	(g) Fibre Mats	
LKM 1 Oval	4.80 „	6.53 „	6.86 „	1. Stencilled, Stencilled & Bevelled or Solid coloured.	1.00/ „
LKM 1 Oblong	5.40 „	7.20 „	7.56 „	2. Designs inlaid & Mottled (without Beveling)	1.75/ „
Rope Disc/ carpet	4.20 „	4.68 „	4.91 „	3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre mats.	Rs. 0.30/Ft ²
13. Robber Backed Tufted Brush Mat				4. Beveling charges	Rs. 0.75/ft ²
RBIM	23 OZ	8.57 „	9.00	(h) For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BCI mats forming japse effect.	Rs. 2.25/ft ²
14. Pasted Braid Mat				(i) Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natural coir yarn as brush of Spl. C1 and VC.9 variety of mat.	Rs. 0.08 ps. for each stand in the mtr. length of mat.
RMPB	15 „	5.62	5.90	(j) Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC8 mats	Rs. 0.06 per strand per running mtr. of mat.
15. Rubber Backed Rope Mat				(k) Lovers' Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured	Rs. 0.40/ft ²
RBMR	22 „	7.59	7.97	(l) Mesh Mats Fancy and solid coloured	Rs. 0.30/ft ²
RBMV	10 Kg/m	10.46	10.98	(m) Rubber backed rope mats RBMR & RBMY Fancy and solid coloured	Rs 0.45/ft ²
16. Mesh Mats				(n) Inlaid Rod Mats—BRIY1—BRIY 2	
MBA	12 OZ	5.47	5.74	(a) Design woven using bleached floor price + Rs. 2.65 per kg. of bleached yarn used	
MRA	12 „	5.66	5.94	(b) Designs woven using dyed yarn and bleached yarn.	floor price + Rs. 4.50/- per Kg. of bleached yarn used.
MVV	10 „	4.57	4.80	(o) Rubber Backed Tufted Brush Mat —RBTM	
MQA	18 „	6.96	7.31	(a) Pre-dyed, mottled, japse bi-coloured.	Rs. 1.40/ft ²
17. Coir Braid Rungage				(b) Stencilled	Rs. 0.65/ft ²
Angengo 5 ply		14.96	15.7	(c) Stencilled & Bevelled or solid coloured.	Rs. 1.15/ft ²
Anjengo 7 Ply		13.42	14.09	(p) Pasted Braid Mat—RMPB Fancy, solid coloured or mottled	Rs. 0.45/ft ²
Anjengo 9 ply	18.65 M/Kg	13.42	14.09		
Anjengo 11,, ply	13.90,,	13.63	14.31		
Vycome 9 ply	13.90 „	11.72	12.31		

APPENDIX II

EXTRA PRICES FOR COIR MATS

I. Design/Colour

(a) Beach Rod & Creel Mats

1. Stencilled	Rs. 0.45/Ft ²
2. Stencilled & Bevelled or Solid coloured.	0.75/ „
3. Pre-dyed, Mottled, Japse, Bi-coloured.	1.20/ „

(b) Vycome Rod & Creel Mats

1. Stencilled	0.65/ „
2. Stencilled & Bevelled or Solid coloured.	1.15/ „
3. Pre-dyed, Mottled, Japse, Bi-coloured.	1.40/ „

(c) Corridor Mats

1. Fancy & Solid Coloured	0.30/ „
2. Stencilling one side	0.35/ „

(d) Sinner Mats

Fancy and Solid Coloured	0.40/ „
--------------------------	---------

(e) Loop Mats

Fancy and Solid Coloured	0.45/ „
--------------------------	---------

II. Lt ft of 2 oz or 1/8" Variety of mats Cost per lift. Rs. Ps.

1. VC-3, VC-5, Spl. C-7, BC-3	0.40/ft ²
2. VC-8	0.40/ft ²
3. BR-2, BR-3, BR-10	0.40/ft ²
4. VR-2, VR-5, VR-6	0.45/ft ²
5. Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9 Spl. R-15	0.45/ft ²
6. Spl. C-1, and Spl. C-5	0.45/ft ²
7. TR-1	0.45/ „
8. BR Inlaid	0.40/ „

9. VR Inlaid	0.45/ ..	9. For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber strips	Rs. 1.50 per running mtr.
10. Fibre Mats	0.45/ ..	10. Rubber backing to coir products by heat pressing or calendaring process using rubber sheets of natural and reclaimed rubber 750 gm/m ²	Rs. 10.20 per m ²
11. BVG-1 for every additional lift of ¼" pile thickness.	0.90/ ..	Additional rubber backing over and above 750 gm/m ²	Rs. 1.45 per 200 gm/m ² or part thereof.
12. BBG-1 for every additional lift of ¼" pile thickness.	0.65/ ..	11. Brush mats bonded with latex backed hessian cloth weighting 450 gm/m ²	Rs. 14.05/m ²
Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at an inter space of not less than 22" between interspace.	0.50/ ..	V. PACKING	
VCB mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into squares of 7 cms (approx.)	0.90/ft ²	1. Polythene bag packing plain (1 mat)	Rs. 0.25/ft ²
Spl. C.1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.95/ft ²	Polythene bag printed (1 mat)	Rs. 0.40/ ..
Spl. C. 1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp.C.1	Polythene bag plain (2 mat)	Rs. 0.40/ ..
Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms.	0.15/ft ²	Polythene bag printed (2 mats)	Rs. 0.65/ ..
III. Non Standard Size of Mats			
For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage of floor price of the appropriate quality of plain mat should be added.			
(a) Mats with width of 25 cms or more are upto 35 cms and with an area less than 2100 sq. cms.	10 %	2. Corrugated cartons for packing mats in sizes :—	
(b) Mats of width less than 25 cms.	25%	24½" × 14½" × 15"	Rs. 10.15 per carton
(c) Mats of sizes having 80 cms or above in width or 150cms or above in length.	10%	27½" × 16½" × 15"	Rs. 12.05 ..
		30½" × 18½" × 15"	Rs. 14.10 ..
IV. Backing/Edging			
1. Glueing :			
(a) 'A' Process	Rs. 3.75 per running mtr.	3. Packing coir mats using ocean krat paper	Rs. 0.06/ft ²
(b) 'B' Process	Rs. 2.50 per running mtr.	4. Packing Coir mats/matlings mats in in Rattan (unsplit) chest of size 75cm × 55cm, × 55cm made out of unsplit rattan	Rs. 56 25/ per basket.
(c) "1/2" Gluing	Rs. 1.90 per running mtr.	5. Covering coir mats bundles with polythene paper	Rs. 0.04 per ft ²
2. Glueing the ends of rubberised coir packed jasje mats with latex	Rs. 0.25/ft ²	VI. STRIPES IN CREEL MATS	
3. Spraying rubber latex on the back-side of coir mat	Rs. 1.25/ft ²	1. Vertical strips	
4. Fire proof finishing for VR3 Mats	Rs. 0.40 ..	No. 1. × 14" × 24"	Rs. 0.20/ft ²
5. Rubberised backing (21mm)	Rs. 2.80 ..	No. 2 × 16" × 27"	Rs. 0.30/ft ²
6. Rubberised coir underlay of "1/2" thickness in carnatic mats	Rs. 6.90 ..	No. 3 × 18" × 30"	Rs. 0.40/ ..
7. Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of IR-7	Rs. 0.25 ..	No. 4 × 20" × 33"	Rs. 0.40/ ..
8. Lacet finish given to edges of matting mats.	Rs. 1.55 per running mtr.	No. 5 × 22" × 36"	Rs. 0.45/ ..
		2. Fancy Diagonal stipped Creel mats VC-3 (24 oz)	Rs. 1.70/"
		Sisal Strands	
		The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 0.40 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.	
		1. Creel Mats 2. Rod Mats 3. Corridor Mats.	
		Aloe Strands	
		1. For every 10% of aloe mixture in ACM mats the extra price is fixed as Rs. 0.06 per sq. ft.	
		2. The extra price for aloe strands for loop in loop mats is fixed as Rs. 0.06 per sq.ft.	
		ANJENGO YARN CHAIN FOR FF MATS	
		The extra price for FF Mats with Anjengo-Chain (Tight and slack) is fixed at 40 paise per sq. ft.	
		For using polythene thread as tight chain in place of Vycome yarn in VR 3	

VR6 mat with ploythene thread as Warp	Rs. 0.65/ft2
Extra braiding for all mats except fibre mats	Rs. 0.50/ft2
Extra braiding for Fibre Mats	Rs. 0.65/ft2
Coir braided handles attached to BR-10 Mats.	Rs. 0.20/ft2
--do-- FSQI	Rs. 1.25 per handle

Pre-Dyed Stencilled

The floor prices for 'Pre-dyed Stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

B. COIR MATTINGS (HANDLOOM)

Code No.	Weight Kg/Sq. Mt.	FOB Price per Sq. Mt.	
		For orders above Rs. 45,000	For orders of Rs. 45,000 and below
1	2	3	4
1. Two Treadle Weave			
M2A2	1.55	20.94	21.99
M2A4	1.70	21.09	22.14
M2R3	1.55	18.64	19.57
M2V3	1.52	16.67	17.50
M2B2	1.40	9.68	10.16
S2M3	1.25	13.95	14.65
S2M10	1.10	18.22	19.13
S2M11	1.85	27.19	28.55
2. Two Treadle Basket Weave (3 × 2 or 2 × 2)			
M2BA1	1.72	22.96	24.11
M2BA3	1.82	23.13	24.29
M2BR3	1.80	21.12	22.18
M2BV3	1.58	17.53	18.41
S2BM1	1.62	22.64	23.77
S2BM3	2.62	28.77	30.21
S2BM7	2.80	28.14	29.55
3. Three Treadle Weave			
M3A3	1.68	20.29	21.30
M3A5	1.82	20.63	21.66
M3R3	1.60	18.64	19.57
M3V3	1.52	16.22	17.03
M3B1	1.40	10.41	10.93
S3M2	2.00	25.79	27.08
S3M4	1.52	19.06	20.01
S3M9	1.90	28.25	29.66
4. Four Treadle Weave			
M4A2	1.75	23.13	24.29
M4A4	1.90	23.13	24.29
M4R2	1.68	20.25	21.26
M4R4	1.82	20.71	21.75
S4M4	2.13	25.96	27.26
S4M13	2.80	32.24	33.85
S4M17	2.62	24.30	25.52
S4M22	1.35	23.91	25.11

	1	2	3	4
5. Special Reeds Coir Matting				
S4Mi	1.40	18.78	19.72	
6. Mesh Matting				
H2M2	0.70	5.60	5.88	
H2M4	1.40	19.23	20.25	
H2M6	0.40	5.73	6.02	
H2M7	1.25	17.97	18.87	
7. Multishaft Matting				
SOM1	2.00	23.90	25.10	
SOM2 (50% Coir Yarn)	2.00	27.50	28.88	
8. Rubber Backing Matting				
S2RB1	1.29	16.72	17.56	
9. Ribbed Matting				
SK-1	2.35	34.12	35.83	
SK-3	2.44	25.91	27.21	
SK-7	1.83	21.45	22.52	
SK-8	2.14	25.60	26.88	
SK-18	3.00	37.99	39.89	
SK-19	2.20	39.27	41.23	
SK-25	4.10	36.82	38.66	
SK-26	3.20	36.88	38.72	
SK-28	1.80	33.27	34.93	
10. Rubber Backed Pasted Coir Matting				
RMQB1	3.50	61.91	65.01	
11. Hand Knotted Coir Matting				
	0.205	7.62	8.00	

C. COIR MATTINGS (POWERLOOM)

1. Two Treadle Plain Weave				
P2A1	1.70	22.29	23.40	
P2A2	2.00	19.29	20.25	
P2A3	1.80	17.38	18.25	
P2A6	1.70	22.81	23.95	
2. Two Treadle Basket Weave				
P2BA2	2.20	27.87	29.26	
P2BA9	2.00	25.34	26.61	
P2BA4	1.80	22.88	24.02	
3. Three Treadle Weave				
P3A1	1.80	21.37	22.44	
P3A2	1.85	27.58	28.96	
4. Four Treadle Weave				
P4A2	2.20	25.96	27.26	
P4A3	2.00	26.43	27.75	
P4A4	1.96	21.71	22.80	
P4A5	1.80	20.04	21.04	
P4A7	1.80	23.36	24.53	
P4A10	2.20	26.70	28.13	
P4A13	2.10	22.98	24.13	
5. Multi Shaft Matting				
POA1	2.20	26.31	27.63	
POA2	2.10	25.21	26.47	

1	2	3	4
6. Ribbed Mattings			
PKM1	2.00	22.37	23.49
PKM3	2.10	37.47	39.34
PKM4	1.80	20.14	21.15
PKM5	2.20	32.14	33.75
PKM8	2.00	54.63	57.36
PKM9	2.90	42.02	44.12
PKM12	1.85	31.61	33.19
PKM13	3.20	57.27	60.13

Quality Code No	Weight Kg/Sq.Mt.	FOB PRICES Per Sq. Mtr.	
		For orders above Rs. 45,000	For orders of Rs. 45,000 and below
D. COIR MOURZOUKS			
BMVN	2.05	41.45	43.52
BMVR	1.90	36.52	38.35
SMNQ	2.70	43.18	45.34
BMVP	3.95	44.06	46.26
BCSQ—1	5.20	83.19	87.35
BCSD	3.05	37.44	39.31
COIR CARPETS (ALLEPPEY CARPETS)			
BCSR—1	2.45	42.18	44.29

APPENDIX—III

Extra Prices for Coir Mattings.

Design colour variation adjustment rates

(a) Plain	Specified rates
(b) Fancy, stencilled, tile diamond, solid colour etc.	20%
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 4.50 per Kg.
(d) RMQBI -do-	Rs. 4.50/m ²

Variation adjustment rates : widths

(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 8" and less	Specified rates for 36" + 5%
(d) above 18" and upto and including 27"	-do- +2%
(e) 72" (1.83 mtrs.) and above upto 2 mtrs.	-do- +5%
(f) Above 2 mtrs. upto 3 mtrs.	-do- +7%
(g) Above 3 mtrs.	-do- +10%

Area

For RMQBI extra charges for area over two m² over specified —2%

Matting rugs variation adjustment rates :

1. Stitched ends	with webbing Rs. 1.20 per running mtr. Without webbing Rs. 0.90 per running mtr.
2. Fringed ends	Rs. 2.40 per running mtr.
3. Tucked in ends	Rs. 2.40 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth	Rs. 3.00 per running mtr.
5. Stitching coloured cotton tape of 15mm width along with jute webbing on one side of the matting	Rs. 0.60 per running metre of cotton tape.
6. 1½ leather webbing on coir matting rugs	Rs. 7.20 per running mtr.

Cricket Pitch Variation adjustment rates

1. 35' or less in length	Rs. 3.60/m ²
2. above 35' in length	Rs. 2.40/m ²

Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting of 35' or less in length	Rs. 1.20/m ²
2. Cricket matting of above 35' in length	Rs. 0.70/m ²
3. Metal eyelets in leather in ordinary matting.	Rs. 1.20 per eyelet.

Extra charges for fixing canvass crease on the cricket pitch matting Rs. 12.90/m² for the area covered by the crease.

For fixing additional leather of 4½" width (2¼" projecting outside the usual leather binding and 2½" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in widthway on face side. Rs. 7.00 per running mtr.

Additional jute hessian of 6" width (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket Pitch matting in widthway on face side. Rs. 2.10 per running mtr.

BACKING AND EDGING

1. Rubber edging	Rs. 2.70 per running mtr.
2. Rubberised coir backing (2mm)	Rs. 19.80/m ²
3. Spraying rubber latex on the back side of coir mattings	Rs. 12.65/m ²
4. Latex backing on coir matting. Mat & tiles.	Rs. 8.35/m ²
5. Glueing the ends of Jap mats with rubber latex	Rs. 0.25 per running mtr.
6. Glueing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc.	Rs. 1.30 per running mtr.
7. Spraying adhesive Fevicol/Movicol etc. on the side	Rs. 2.70 per ft. ²

8. Rubber sheet in size 25 cms x 16 cms to be sewed in matting.	Rs. 0.40 per piece.		slack chain of ribbed mattings.
9. Stitching the edges of car mat with rexine	Rs. 2.10 per running mtr.		(ii) Rs. 0.12 per running per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings
10. Cheaper rexine to be sewed around the car mats	Rs. 0.25 per running mtr.		(iii) Rs. 0.06 per running mtr per 2 ply sisal strands in weft of coir mattings
11. Lacet finish given to the edges of matting mats	Rs. 1.50 per running mtr.		
12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing	Rs. 1.45 per running Mtr.	(b) Aloe strand	(i) Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr except slack chain of ribbed mattings
13. Rubber backing to coir matting by calendering process (600 gm/sq mtr.)	Rs. 4.00/m ²		(ii) Rs. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings
II. PACKING			
(i) Polythene Packing :			
(a) Rugs individually	Rs. 1.20/m ²	(c) Joining coir mattings in width	Rs. 1.20 per running mtr.
(b) Rolls of 5 rugs	Rs. 0.40/m ²	17. Rubber heel pad by calendering process for car mats made of coir matting rugs.	Rs. 2.40/sq ft
(c) Matting rolls	Rs. 0.20/m ²	18. Folded and pasted end finishing given to Rubber backed coir matting rugs	Rs. 1.50/running mtr.
(ii) Packing coir matting with oceankraft paper	Rs. 0.12/m ²	19 Pre-dyed fancy woven diagonal striped matting rugs/matting mats	25% over the specified rates for fancy.
(iii) Packing coir matting rolls inside with PVC tube of 8 cm inner dia.	Rs. 25.20 per running mtr. of PVC tube.	APPENDIX--IV	
(iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 8 cm inner dia.	Rs. 27.60 per running mtr.	Extra prices for Coir Mouzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets)	
(v) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 10 cm inner dia	Rs.) 32.40/-per running mtr. of tube.	Design colour variation adjustment rates :	
14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochlorite	Rs. 2.40 per kg.	(a) Plain	Specified rates
15. Bleached coir yarn strands in coir matting		(b) Solid coloured, stripped (Weft may) and stencilled	20% (Over the specified rates)
1. Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting		(c) Fancy woven design	30% (Over the specified rates)
2. Rs. 0.03 per runing mtr. per 2 ply strands in slack chain in ribbed matting.		In the case of other embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in Coir Mattings are applicable.	
16. (a) Sisal strands in coir mattings	(i) Rs. 0.06 per running per two ply strands except		

